

## वश्व का सबसे गहरा ब्लू होल


[स्रोत: टाइम्स ऑफ़ इंडिया](#)

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने मेक्सिको में चेतुमल खाड़ी में स्थिति [वश्व के सबसे गहरे ब्लू होल](#) की खोज की है, जिसे 'ताम जा' ब्लू होल (TJBH) के नाम से जाना जाता है।

- मूलतः यह दूसरा सबसे गहरा होल माना जाता था, हालाँकि, हाल के अध्ययनों द्वारा पता चला है कि यह समुद्र तल से **420 मीटर** नीचे है, जो अन्य ज्ञात **ब्लू होल्स** से भी अधिक गहरा है।
- नया माप **मेसोपेलैजिक क्षेत्र** तक पहुँच गया, जहाँ सूर्य का प्रकाश काफी कम है और वहाँ समुद्री जीवों की सघनता है।
- TJBH की गहराई अन्य प्रसिद्ध ब्लू होल जैसे दक्षिण चीन सागर में **संशा यॉंगले ब्लू होल** (301 mbsl) और बहामास में **डीन के ब्लू होल** (202 mbsl) से भी अधिक है।
- **ब्लू होल** कोरल्स, स्पंज, मोलस्क, समुद्री कछुए और शार्क सहित विविध समुद्री जीवन की मेज़बानी करने वाले **जैविक हॉटस्पॉट** के रूप में कार्य करते हैं।
- यहाँ **पहुँचने** के लिये **चुनौतीपूर्ण स्थितियों** के कारण ब्लू होल की खोज सीमित कर दी गई है, क्योंकि अधिकांश ब्लू होल में छोटे-छोटे छदिर होते हैं जिनकी गहराई जल के नीचे कई सौ फीट तक हो सकती है, तथा ये स्वचालित सबमर्सिबिल के लिये व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

वशिषता	ब्लू होल्स	गहरी खाइयाँ
नरिमाण	गुफा का ढहना	वविर्तनकि प्लेट का प्रवषिठन
स्थान	महाद्वीपीय शेल्फ, चट्टानें आदि।	अभसिरण प्लेट सीमाएँ
गहराई	परविर्तनशील, ऊपरी सतह से लेकर बहुत गहरे तक परविर्तनशील	महासागर के सबसे गहरे भाग (मारयाना ट्रेंच > 36,000 फीट)

# Benthic and Pelagic Zones



और पढ़ें: [जेवकि हॉटस्पॉट](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-s-deepest-blue-hole>

